

कोयला मंत्रालय

मांग संख्या 10

कोयला मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	390.76	44.32	435.08	450.00	47.70	497.70	550.00	47.00	597.00	550.00	50.00	600.00	
पूँजी	...	-0.02	-0.02	
जोड़	390.76	44.30	435.06	450.00	47.70	497.70	550.00	47.00	597.00	550.00	50.00	600.00	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	0.50	13.23	13.73	0.70	16.05	16.75	1.25	17.35	18.60	1.25	18.00	19.25
श्रम और रोजगार													
कोयला खान श्रमिक कल्याण													
2. कोयला खान पेंशन योजना/जमा संबद्ध बीमा योजना को अंशदान	2230	...	24.21	24.21	...	24.00	24.00	...	22.00	22.00	...	24.00	24.00
कोयला और लिग्नाइट													
3. कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया है)	2803	119.01	...	119.01	146.90	...	146.90	169.83	...	169.83	169.83	...	169.83
4. कोयला खनन क्षेत्रों में यातायात आधारभूत ढांचे का विकास (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया)	2803	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00
5. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2803	11.40	...	11.40	11.65	...	11.65	11.65	...	11.65	17.95	...	17.95
6. क्षेत्रीय अन्वेषण	2803	19.00	...	19.00	40.90	...	40.90	57.26	...	57.26	51.48	...	51.48
7. व्यापक ट्रेडिंग	2803	200.59	...	200.59	143.05	...	143.05	167.69	...	167.69	167.64	...	167.64
8. पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण	2803	0.90	...	0.90	0.35	...	0.35	0.40	...	0.40
9. कोयला नियंत्रक	2803	0.26	6.88	7.14	0.30	7.65	7.95	0.30	7.65	7.95	0.30	8.00	8.30
जोड़-कोयला और लिग्नाइट		390.26	6.88	397.14	393.70	7.65	401.35	482.08	7.65	489.73	482.60	8.00	490.60
10. कोयला भंडार वाले क्षेत्र अधिग्रहण निधि से पूरा किया गया व्यय (सीबीए)													
10.01 कोयला पूरित क्षेत्रों का अधिग्रहण	4803	...	309.82	309.82	...	50.00	50.00	...	1722.00	1722.00	...	1647.00	1647.00
10.02 घटाइए-कोयला भंडार वाले क्षेत्र अधिग्रहण से पूरा किया गया व्यय	4803	...	-309.84	-309.84	...	-50.00	-50.00	...	-1722.00	-1722.00	...	-1647.00	-1647.00
कुल		...	-0.02	-0.02
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	24.00	...	24.00	28.95	...	28.95	29.00	...	29.00
12. जनजातीय उप-आयोजना हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	31.60	...	31.60	37.72	...	37.72	37.15	...	37.15

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
जोड़-श्रम और रोजगार	390.26	31.07	421.33	449.30	31.65	480.95	548.75	29.65	578.40	548.75	32.00	580.75	
कुल जोड़	390.76	44.30	435.06	450.00	47.70	497.70	550.00	47.00	597.00	550.00	50.00	600.00	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
1. नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड	12803	...	57.90	57.90	...	97.60	97.60	...	107.60	107.60	...	272.00	272.00
	12801	...	1770.00	1770.00	...	2206.61	2206.61	...	2382.54	2382.54	...	2664.00	2664.00
	जोड़	...	1827.90	1827.90	...	2304.21	2304.21	...	2490.14	2490.14	...	2936.00	2936.00
2. कोल इण्डिया लिमिटेड	12803	...	2915.23	2915.23	...	5000.00	5000.00	...	5000.00	5000.00	...	5225.00	5225.00
3. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.	12803	...	2047.26	2047.26	...	4000.00	4000.00	...	2900.00	2900.00	...	3850.00	3850.00
जोड़		...	6790.39	6790.39	...	11304.21	11304.21	...	10390.14	10390.14	...	12011.00	12011.00
ग. योजना परिव्यय													
1. विद्युत	12801	...	1770.00	1770.00	...	2206.61	2206.61	...	2382.54	2382.54	...	2664.00	2664.00
2. कोयला और लिग्नाइट	12803	390.76	5020.39	5411.15	394.40	9097.60	9492.00	483.33	8007.60	8490.93	483.85	9347.00	9830.85
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	55.60	...	55.60	66.67	...	66.67	66.15	...	66.15
जोड़		390.76	6790.39	7181.15	450.00	11304.21	11754.21	550.00	10390.14	10940.14	550.00	12011.00	12561.00

1. **सूचना प्रौद्योगिकी सहित सचिवालय/आर्थिक सेवाएं:** इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के व्यय सहित कोयला मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **कोयला खान पेंशन योजना/जमा सम्बद्ध बीमा योजना के लिए अंशदान ::** कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 से लागू की गई। इस योजना के लिए निधियों की व्यवस्था कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा कुल परिलब्धियों के 1.1/6 प्रतिशत के अंशदान द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सरकार भी 1600 रूपए प्रतिमाह की उच्चतम सीमा की शर्त पर कर्मचारियों की कुल परिलब्धियों के 1.2/3 प्रतिशत की दर से अंशदान करती है। इस योजना के प्रशासन की लागत आंशिक तौर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है।

3. **कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा:** कोयले की निकासी के पश्चात खानों को स्थिर करने में लिए इसमें रेत भराई और संरक्षण के विभिन्न उपायों के लिए प्रावधान शामिल है। इस उद्देश्य के लिए निधि की व्यवस्था कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के अधीन गैर-कोकिंग तथा कोकिंग कोयले पर 10 रूपए प्रति टन की दर से कोयले के प्रेषण पर उपकर (उत्पाद – शुल्क) लगाकर की जाती है।

4. **कोयला खान क्षेत्रों में यातायात की आधारभूत संरचना का विकास:** इसमें कोयला खान क्षेत्रों में सड़क और रेल परिवहन अवसंरचना के विकास के लिए व्यवस्था है। यह व्यवस्था एकत्रित उपकर (उत्पाद – शुल्क) में से की जाती है।

5. **अनुसंधान और विकास:** इसमें कोयला उद्योग में प्रत्याशित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है। मुख्य जोर स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने और लिक्विड परियोजना के लिए कोयला हेतु कोयला ब्लाकों का पता लगाने पर है।

6. **क्षेत्रीय अन्वेषण ::** इसमें कोयले की मांग में हुई पर्याप्त वृद्धि की पूर्ति करने की दृष्टि से कोयला और लिग्नाइट के क्षेत्रीय अन्वेषण की गति तेज करने के लिए व्यवस्था की गई है। स्कीम का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की उपलब्धता के लिए ड्रिलिंग शुरू करना है। स्कीम को जीएसआई की सहायता से सीएमपीडीआईएल के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

7. **विस्तृत ड्रिलिंग ::** गैर-सीआईएल कोयला खनन ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग हेतु प्रावधान किया गया है ताकि प्राप्त भू-वैज्ञानिक रिपोर्टों से संभावित निवेशकों को कोयला खनन के बारे में निवेश करने का निर्णय लेने और खनन योजना को तैयार करने में लगने वाले समय में कमी करने में सहायता मिल सके। इस उपाय से कोयला खनन उद्योग में निजी निवेश को बढ़ावा

मिलेगा। स्कीम को जीएसआई, एमईसीएल तथा कुछ निजी संस्थाओं की सहायता से सीएमपीडीआईएल के जरिए कार्यान्वित किया गया है।

8. **पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण:** झरिया तथा रानीगंज के लिए अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार इसमें कोयला खान क्षेत्रों में भूमि पुनरूद्धार और धंसाव नियंत्रण सहित पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी उपाय करने के लिए प्रावधान किया गया है।

9. **कोयला नियंत्रण:** इसमें कोयला नियंत्रक के कार्यालय एवं उसकी स्थापना के लिए प्रावधान है।

10. **कोयलाधारी क्षेत्रों का अधिग्रहण:** इसमें कोल इंडिया लि. के लिए कोयलाधारी क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु व्यवस्था है। कोल इंडिया लि. द्वारा निधियां अग्रिम तौर पर प्रदान की जाती हैं।

11. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान ::** सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है।

12. **आदिवासी उप-योजना के लिए एकमुश्त प्रावधान ::** सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आदिवासी उप-योजना के लाभ के लिए परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है। व.अ. 2014-2015 योजना प्रबंधन में क्षेत्रीय अन्वेषण स्कीम के लिए 5.17 करोड़ रु. तथा गहन ड्रिलिंग स्कीम के लिए 16.81 करोड़ रुपए और 15.17 करोड़ रुपए कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए शामिल हैं।